

तुरंत रिलीज के लिए

निवासियों को ब्रैम्पटन के हुरोन्टैरियो-स्टील्स क्षेत्र के परिवर्तन पर वर्चुअल टाउन हॉल में आमंत्रित किया गया

ब्रैम्पटन, ओन्टैरियो (28 सितम्बर, 2020) – निवासियों को ट्रांज़िट ओरिएंटेड कम्युनिटीज (Transit Oriented Communities) और अपटाउन ब्रैम्पटन हुरोन्टैरियो-स्टील्स (Uptown Brampton Hurontario-Steeles) (जिसे लोकल तौर पर शॉपर्स वर्ल्ड (Shoppers World) कहा जाता है) क्षेत्र के बारे में और जानने के लिए, वीरवार, 8 अक्टूबर को शाम 6 बजे से रात 8:30 बजे तक, वर्चुअल टाउन हॉल में आमंत्रित किया जाता है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, सिटी ऑफ हेल्सिंकी (City of Helsinki), ग्रीनबर्ग कन्सल्टेंट्स (Greenberg Consultants) और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोंटो स्कूल ऑफ सिटीज (University of Toronto School of Cities) के सहयोग से, अर्बन लैंड इंस्टीट्यूट (Urban Land Institute) की मेजबानी वाले इस कार्यक्रम में, निवासी इंडस्ट्री के विशेषज्ञों को विचार सुनेंगे। साथ ही, वे अपटाउन शॉपर्स वर्ल्ड (Uptown Shoppers World) साइट को, अर्बन कम्युनिटी हब (शहरी सामुदायिक केंद्र) वाले एक “20-मिंट तक के सैर करने योग्य नेबरहुड” में बदलने के इस रोमांचक अवसर के बारे में सवाल पूछेंगे, जो एक अधिक आबादी, मिश्रित प्रयोग वाला, परिवार-अनुकूलित, स्वस्थ और सैर करने योग्य, ट्रांज़िट-ओरिएंटेड कम्युनिटी (ट्रांज़िट-अनुकूलित समुदाय) हो।

महत्वपूर्ण स्पीकर्स में शामिल हैं:

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन
- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वाईस 3 और 4; चेयर, प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन
- एदुराडो मोरैनो (Eduardo Moreno), डायरेक्टर ऑफ सिटी प्रॉस्पैरिटी इंडेक्स, यू.एन.-हैबिटेट
- माननीय किंग सूरमा (Kinga Surma), एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ओन्टैरियो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन
- जोनाथन गिटलिन (Jonathan Gitlin), चीफ ऑपरेटिंग अफसर, रियोकेन आर.ई.आई.टी.
- ऐनी सिनेमैकी (Anni Sinnemäki), डिप्टी मेयर ऑफ अर्बन एन्वायरनमेंट, सिटी ऑफ हेल्सिंकी
- जानी मोलिस (Jani Moliis), हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, सिटी ऑफ हेल्सिंकी
- इवोन यंग (Yvonne Yeung), मैनेजर ऑफ अर्बन डिज़ाइन, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन
- केन ग्रीनबर्ग (Ken Greenberg), प्रिंसिपल, ग्रीनबर्ग कन्सल्टेंट्स
- मैटी सिएमैटैची (Matti Siemiatycki), इंटरिम डायरेक्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोंटो स्कूल ऑफ सिटीज
- बॉब जर्क (Bob Bjerke), डायरेक्टर ऑफ पालिसी प्लानिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन
- रिचर्ड फॉरवर्ड (Richard Forward), कमिश्नर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन
- एंड्रयु डन्कैन (Andrew Duncan), एस.वी.पी. ऑफ डेवलेपमेंट, रियोकेन आर.ई.आई.टी.
- डॉ. लॉरेंस लोह (Dr. Lawrence Loh), मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, पील पब्लिक हेल्थ

डेव कैपिल (Dave Kapil), चेयर, न्यू ब्रैम्पटन

- रिचर्ड जोए (Richard Joy), एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यू.एल.आई. टोरोंटो
- एमा वेस्ट (Emma West), चेयर, यू.एल.आई. टोरोंटो

निवासी, टाउन हॉल के लिए, [यहां रजिस्टर \(register here\)](#) कर सकते हैं।

अपटाउन ब्रैम्पटन के बारे में

अपटाउन फ्रेमवर्क प्लान (Uptown Framework Plan), अपटाउन क्षेत्र को ट्रांज़िट ओरिएंटेड कम्युनिटी में बदलने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करके, ब्रैम्पटन 2040 विजन (Brampton 2040 Vision) और 2018 से 2022 तक की टर्म ऑफ काउंसिल प्रियोरटीज (Term of Council Priorities) से आगे लागू करेगा। कई बड़े विकासकों ने इसमें काफी रुचि दर्शाई है। यह परिवर्तन, संपूर्ण क्षेत्र के पब्लिक ट्रांज़िट और जोशीली पब्लिक जगहों तक पहुंच के साथ, क्रियाशील ट्रांस्पॉर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एकीकृत करके, मौजूदा कार-अनुकूलित क्षेत्र में बदलाव लाएगा।

लाइट रेल ट्रांज़िट (Light Rail Transit) स्टेशन, जो 2024 में बन जाएगा, से 5-मिनट के पैदल रास्ते के साथ – हुरोनटैरियो और स्टील्स के चौराहे पर स्थित – शहरी नेबरहुड को, इसके केंद्र पर स्थित, शॉपर्स वर्ल्ड अर्बन कम्युनिटी हब (Shoppers World Urban Community Hub) से जोड़ा जाएगा। अपटाउन के केंद्र को ट्रांज़िट ओरिएंटेड कम्युनिटी में बदलने से, ब्रैम्पटन के निवासी बड़े हुए सामाजिक और भौतिक कनेक्शनों, क्रियाशील जीवनशैलियों की हिमायत वाले डिज़ाइन, कम हुए प्रदूषण, आर्थिक वृद्धि और नौकरियां पैदा होने का अनुभव करेंगे।

हवाले

“ब्रैम्पटन प्रगतिशील सोच वाला अवसरों का शहर है और हम जोशीले, स्वस्थ और संपूर्ण समुदायों के लिए बढ़िया योजनाओं के तरीके पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं सभी निवासियों को सलाह देता हूं कि अपटाउन ब्रैम्पटन के आभासी (वर्चुअल) कार्यक्रम में हिस्सा लें, 20-मिनट के सैर करने योग्य समुदायों के बारे में जानें और आप क्षेत्र को कैसा देखना चाहते हैं, इस बारे में अपने सुझाव दें। इकट्ठे मिलकर, हम अपटाउन ब्रैम्पटन की क्षमता खोल सकते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हुरोनटैरियो एल.आर.टी. का स्टील्स स्टॉप को, गेटवे मोबिलिटी हब के तौर पर, मेट्रोलेक्स 2041 रीजनल ट्रांस्पॉर्टेशन प्लान और ब्रैम्पटन ऑफिशियल प्लान में नोट किया हुआ है। यह उद्देश्य, बढ़िया क्वालिटी की सैर और साइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित, उच्च आबादी में वृद्धि और यात्रा की कई विधियों के लिए डिज़ाइन की हिमायत करता है। यदि ग्लोबल महामारी ने हमें कुछ सिखाया है, तो वह यह है कि हमारे लिए नई चुनौतियों और बदलते व्यवहारों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना आवश्यक है। अपटाउन को ट्रांज़िट ओरिएंटेड कम्युनिटी में बदलना बिल्कुल सही है।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“अर्बन कम्युनिटी हब इंप्लीमेंटेशन प्लान, अपटाउन कोर के अंदर उभरते अर्बन हब के डिज़ाइन का मार्गदर्शन करता है। जगहें बनाने की इन सफल कार्यनीतियों से मिले लाभ, आर्थिक और मानवता, दोनों संदर्भों में प्राप्त होंगे। इसमें शामिल हैं, नौकरियां पैदा होना, सुधरा हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक मेल और वातावरण अनुकूलित फुटप्रिंट पर चिंतनशील विकास। यह आभासी कार्यक्रम, ब्रैम्पटन निवासियों को जोड़ने और इस रोमांचक प्रोजेक्ट के बारे में और सहयोग के लिए प्रेरित करने का शानदार अवसर है।”

- *पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी में, हम रहने योग्य, स्वस्थ और संपूर्ण समुदायों की योजना बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे निवासियों के विचारों और जरूरतों को दर्शाएं। अपटाउन ब्रैम्पटन वर्चुअल टाउन हॉल, ब्रैम्पटन के निवासियों को अपटाउन ब्रैम्पटन के लिए सिटी की योजनाओं के बारे में और जानने, स्टाफ से सवाल पूछने और इस बारे में अपने सुझाव देने का अवसर प्रदान करेगा कि क्षेत्र को ट्रांज़िट ओरिएंटेड कम्युनिटी के तौर पर कैसे विकसित किया जाए।”

- *डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“अगले कई वर्ष, हमारे रीजन में वृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हमारे लिए, सार्वजनिक नीति बनाने वालों और लोकल समुदायों के बीच में सकारात्मक लीडरशिप के द्वारा, नवीन और ज़िम्मेदार विकास को लागू करने को आगे बढ़ाने के लिए, रहने योग्य, बराबरी वाले, विविध और भागीदारी वाले पड़ोस के दृष्टिकोण का लाभ उठाना आवश्यक है। ब्रैम्पटन का अग्रसक्रिय दृष्टिकोण इसकी ओर मार्ग प्रशस्त कर रहा है और इस जैसे कार्यक्रम, शानदार सहयोग में वृद्धि करते हैं और इस बारे में बातचीत का विस्तार करते हैं कि हम अपने परिवारों के लिए किस तरह के शहर चाहते हैं।”

- *रिचर्ड जोय (Richard Joy), एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अर्बन लैंड इंस्टीट्यूट, टोरोंटो*

“हम ग्रेटर टोरोंटो एरिया के अंदर वृद्धि के बारे में विचारविमर्श में हिस्सा लेने के लिए बेहद खुश और उत्साहित हैं। हेल्सिंकी भी तीव्र वृद्धि के साथ कई चुनौतियों का सामना करता है लेकिन हमारे भविष्य की योजना बनाने में रोमांच भी बहुत है। मैं आपको लाभदायक विचारविमर्श के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि हेल्सिंकी का अनुभव, नए अपटाउन अर्बन हब के लिए, ब्रैम्पटन की योजनाओं को प्रेरित करने में मदद करेगा।”

- *ऐनी सिनेमैकी (Anni Sinnemäki), डिप्टी मेयर, सिटी ऑफ हेल्सिंकी और चेयर ऑफ अर्बन एन्वायरनमेंट*

“ब्रैम्पटन, शॉपर्स वर्ल्ड में अपटाउन में, अपने ग्रहण किए 2040 विजन को पूरा करने में अगले रोमांचक कदम के लिए तैयार है। सिटी, रीजन और प्रांत के सहयोग से, छह प्रमुख विकासकों ने, स्टील्स और हुरोनटैरियो/मैन स्ट्रीट में लाइट रेल के अनुमानित आगमन के लिए, 20-मिनट ट्रांज़िट ओरिएंटेड, सैर करने योग्य नेबरहुड के लिए, डिज़ाइन-आधारित विजन लागू करने के लिए सहयोग दिया है। यह पहलकदमी, इस युवा आबादी वाली, गतिशील और तेज़ी से बढ़ रही, जी.टी.ए. म्युनिसिपल्टी के लिए, अधिक स्थिर, भागीदारी वाले और खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ने का संकेत देती है।”

- *केन ग्रीनबर्ग (Ken Greenberg), प्रिंसिपल ऑफ ग्रीनबर्ग कन्सलटेंट्स*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे



Media Release

बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca